

# पकड़ी गई नकली शराब फैक्ट्री, पांच गिरफ्तार

Publish Date: Sat, 01 Jan 2022 07:32 PM (IST) Author: Jagran



लीड----- दानापुर- पटना भेजी जा रही थी शराब 257 लीटर विदेशी शराब 40 लीटर स्पिरिट

लीड-----

दानापुर- पटना भेजी जा रही थी शराब, 257 लीटर विदेशी शराब, 40 लीटर स्पिरिट, बरामद

संस, हजारीबाग : कटकमदाग के फतहा में अवैध शराब मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने इसका खुलासा किया है। मौके से पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शराब फैक्ट्री से 257 लीटर विदेशी शराब, 40 लीटर स्पिरिट, विभिन्न कंपनियों के रैपर व शीशी बरामद बरामद की गई। ये शीशी बी -7, मैकडोवल, आरसी की है। मौके से उत्पाद विभाग की छापेमारी दल ने एक टाटा सूमो भी बरामद की है। वाहन बीआर 01पी ए - 7610 बिहार निवासी धनंजय प्रियदर्शी के नाम से है। उत्पाद विभाग ने मालिक को भी आरोपित बनाया है। गिरफ्तार आरोपितों में रौशन गुप्ता पिता अशोक कुमार गुप्ता, बड़कागांव, जितेंद्र कुमार पसई, कटकमदाग, कामेश्वर गंडू जमुआरी कटकमदाग फैक्ट्री संचालक तथा दानापुर पटना के सुनील राय और रिशु कुमार हैं। शराब की खेप पटना के दानापुर भेजी जा रही थी। इस बीच गुप्त सूचना के आलोक में देर रात छापेमारी कर रंगेहाथ उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी आरोपितों को कोविड जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। छापेमारी की जानकारी देते हुए मोबाइल प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सहायक आयुक्त को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर दल का गठन किया गया। छापेमारी में बरामद शराब की जांच के लिए सैंपल विभाग भेजा जा रहा है। बताया कि पूछताछ में करीब तीन से चार माह से यहां फैक्ट्री संचालित होने की बात कहीं जा रही है।

फतहा में हाइवा चालक भी पी रहे थे नकली शराब

जानकारी के अनुसार फतहा में बनाई जा रही नकली शराब की बिक्री फतहा चौक पर विभिन्न दुकानों में की जाती थी। यहां कोयला लेकर आने वाले हाइवा चालक यहां से शराब खरीदते थे। छापेमारी के बाद फतहा चौक से लेकर चालकों के बीच हड़कंप मच गया। शराब निर्माण करता बड़कागांव का रौशन गुप्ता, पसई कटकमदाग का जितेंद्र कुमार व कामेश्वर गंडू है। वहीं बिहार शराब की तस्करी दानापुर पटना के सुनील राय और रिशु कुमार कर रहे थे।

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/hazaribagh-hbznws-22344799.html>